

रजिस्टर्ड डाक ए.डी. द्वारा

: आयुक्त (अपील-I) का कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क :
सैन्टल एक्साइज भवन, सातवीं मंजिल, पौलिटैक्नीक के पास,
आंबावाडी, अहमदाबाद- 380015.

क फाइल संख्या : File No : **V2(CHA)23/ST-4/STC-III/2015/Appeal-I**
V2(CHA)24/ST-4/STC-III/2015/Appeal-I

ख अपील आदेश संख्या : Order-In-Appeal No.: **AHM-EXCUS-003-APP-022 to 023-16-17**
दिनांक Date **26.05.2016** जारी करने की तारीख Date of Issue **13/6/16**

श्री उमाशंकर, आयुक्त (अपील-I) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अहमदाबाद द्वारा पारित

Passed by **Shri Uma Shankar** Commissioner (Appeals-I) Central Excise
Ahmedabad

ग _____ आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-III आयुक्तालय द्वारा जारी मूल आदेश सं
दिनांक : _____ से सृजित

Arising out of Order-in-Original No **AS PER ORDER** dated : **26.02.2015** Issued by:
Assistant Commissioner, Central Excise, Din: Mehsana, A'bad-III.

घ अपीलकर्ता / प्रतिवादी का नाम एवं पता Name & Address of The Appellants/**Respondents**

M/s. Proec Energy Limited,

इस अपील आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति उचित प्राधिकारी को अपील निम्नलिखित प्रकार से कर सकता है:-

Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way :-

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील:-
Appeal to Customs Central Excise And Service Tax Appellate Tribunal :-


वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत अपील को निम्न के पास की जा सकती:-
Under Section 86 of the Finance Act 1994 an appeal lies to :-

पश्चिम क्षेत्रीय पीठ सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण ओ.20, न्यू मैन्टल हास्पिटल कम्पाउण्ड, मेधाणी नगर, अहमदाबाद-380016

The West Regional Bench of Customs, Excise, Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, Meghani Nagar, New Mental Hospital Compound, Ahmedabad - 380 016.

(ii) अपीलीय न्यायाधिकरण को वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 86 (1) के अंतर्गत अपील सेवाकर नियमावली, 1994 के नियम 9(1)के अंतर्गत निर्धारित फार्म एस.टी- 5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो उसकी प्रतियाँ भेजी जानी चाहिए (उनमें से एक प्रमाणित प्रति होगी) और साथ में जिस स्थान में न्यायाधिकरण का न्यायपीठ स्थित है, वहाँ के नामित सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के न्यायपीठ के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में जहाँ सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहाँ रूपए 1000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 50 लाख या उससे ज्यादा है वहाँ रूपए 10000/- फीस भेजनी होगी।

(ii) The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act 1994 to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules 1994 and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated.



(iii) वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धारा (2ए) के अंतर्गत अपील सेवाकर नियमावली, 1994 के नियम 9 (2ए) के अंतर्गत निर्धारित फार्म एस.टी.7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) के आदेश की प्रतियाँ (उसमें से प्रमाणित प्रति होगी) और आयुक्त/सहायक आयुक्त अथवा उप आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन करने के निदेश देते हुए सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड/ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रति भेजनी होगी।

(iii) The appeal under sub section and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 & (2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Central Board of Excise & Customs / Commissioner or Dy. Commissioner of Central Excise to apply to the Appellate Tribunal.

2. यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975 की शर्तों पर अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन प्राधिकारी के आदेश की प्रति पर रु 6.50/- पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

2. One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjuration authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.

3. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्यविधि) नियमावली, 1982 में चर्चित एवं अन्य संबंधित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।

3. Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

4. सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सीस्तेत) के प्रति अपीलों के मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1984 की धारा 34फ के अंतर्गत वित्तीय(संख्या-2) अधिनियम 2014(2014 की संख्या 24) दिनांक: 06.08.2014 जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, द्वारा निश्चित की गई पूर्व-राशि जमा करना अनिवार्य है, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा की जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रूपए से अधिक न हो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत " माँग किए गए शुल्क " में निम्न शामिल हैं

- (i) धारा 11 डी के अंतर्गत निर्धारित रकम
- (ii) सेनवैट जमा की ली गई गलत राशि
- (iii) सेनवैट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

→ आगे बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम, 2014 के आरम्भ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होंगे।

4. For an appeal to be filed before the CESTAT, it is mandatory to pre-deposit an amount specified under the Finance (No. 2) Act, 2014 (No. 25 of 2014) dated 06.08.2014, under section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under section 83 of the Finance Act, 1994 provided the amount of pre-deposit payable would be subject to ceiling of Rs. Ten Crores,


Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

→ Provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(4)(i) इस संदर्भ में, इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

(4)(i) In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."



ORDER-IN-APPEAL

This order arises out of following appeals filed by the Asstt. Commissioner, Central Excise, Division Mehsana (in short 'appellant') in terms of Review Orders passed by the Commissioner, Central Excise, Ahmedabad-III under section 84(1) of the Finance Act, 1994 against following Order-in-Originals (in short 'impugned order') passed by the Asstt. Commissioner, Central Excise, Division Mehsana, Ahmedabad-III (in short 'adjudicating authority') as detailed below.


S.No.	Review Order No/Date	O.I.O.No./date	Respondent	Appeal No.
1	27/2015-16 dtd.08.06.2015-	270/Ref/2014-ST dtd.26.02.2015	M/s.Proec Energy Ltd.	23/STC-III/2015-16
2	28/2015-16 dtd.08.06.2015	271/Ref/2014-ST dtd.26.02.2015	-do-	24/STC-III/2015-16

2. Briefly stated that the adjudicating authority sanctioned refund claims filed by the respondent under Notifn. No.41/2012-ST dated 29.06.2012 vide impugned orders. Aggrieved with the impugned orders, the review authority viz. Commissioner, vide above review orders, directed the appellant to file appeals wherein, interalia, contested that the 'place of removal' in the instant case is port of export and the services such as Terminal Handling Charges(THC), Custom House Agency (CHA), Inland Transport etc. received by the respondent and used upto the port of export. As such benefit of refund under Notifn. No.41/2012-ST dated 29.06.2012 shall not be applicable at all as the conditions no.1(a) specified in it is not fulfilled, in as much as, in case of excisable goods, taxable services that have not been used beyond the place of removal, for the export of said goods.

3. Personal hearing in the matter was held on 06.04.2016. Shri Ankit Moda, Authorised Signatory, appeared before me on behalf of the respondent and submitted that for place of removal a new notification no.1/2016 has been issued and therefore they are entitled to refund.

4. I have carefully gone through the appeal memorandum, submission made at the time of personal hearing and evidences available on records. The main issue to be decided is whether the impugned orders passed by the adjudicating authority is just, legal and proper or otherwise. Accordingly, I proceed to decide the case on merits.

4.1 At the outset, I find that the respondent during the course of personal hearing submitted that they should be allowed credit if not refund. In this regard, I find that



the refund is claimed under Notifn. No.41/2012-ST dated 29.06.2012 which is conditional one. The condition no.1(a)(i) is reproduced below for the sake of ease.

"Provided that-

- (a) **The rebate shall be granted by way of refund of service tax paid on the specified services.**

Explanation.- For the purpose of this notification,-


(A) "specified services" means-

- (i) **In case of excisable goods, taxable services that have been used beyond the place of removal, for the export of said goods;"**

From the above, it is clear that the services used beyond the place of removal are eligible for refund. Normally, the place of removal is factory gate as defined in the Central Excise Act, 1944. But, in case of export of goods, the place of removal is port of export/ICD/CFS as held in series of judgments of the higher appellate forum. In the instant case, I find that the goods have been exported from the port. So, it is obvious that the place of removal is port. I find that the said notification allows refund of service tax paid on the specified services used beyond the place of removal. It is true that the services used by the respondent from the factory gate to the port of export. I also find that there is no dispute regarding 'place of removal' as clarified by the CBEC vide Circular No.988/12/2014-CX dated 20.10.2014 and 999/6/2015-CX dated 28.02.2015. Hence, I find that the services which the respondent have utilized is upto the place of removal i.e. port whereas the said notification allows refund of service tax paid on specified services used beyond the place of removal and as such the respondent is not eligible for refund in question in terms of said notification. However, the Govt. has amended the said notification vide Notifn. No.1/2016-ST dated 01.03.2016 wherein explanation given in Clause(A)(i) has been substituted as detailed below:

"(i) in the case of excisable goods, taxable service that have been used beyond the factory or any other place or premises of production or manufacture of said goods, for their export."

Further, I also find that the Clause 157 of the Finance Bill, 2016 proposes said amendment retrospectively i.e. from 01.07.2012, the date of application of parent notification, which shall be effective when it is passed in the Parliament. I find that said Finance Bill, 2016 has been passed in the Parliament on 14th May, 2016 without any amendment.



4.2. In view of above amendment with retrospectively, in the instant case, the respondent is entitled for refund of service tax on services used beyond the factory or any other place or premises of production or manufacture of the said goods, for export of the said goods.

5. In view of above discussion and findings, I reject the appeal filed by the appellant. The appeal stands disposed off accordingly.

Uma Shanker

(UMA SHANKER)
COMMISSIONER (APPEAL-I)
CENTRAL EXCISE, AHMEDABAD.
Dt. 26.05.2016

Attested

Mohan V.V.
(MOHANAN.V.V.)

Superintendent (Appeal-I)
Central Excise, Ahmedabad.

BY SPEED POST/ R.P.A.D. TO:

- (1) The Asstt. Commissioner,
Central Excise, Division-Mehsana.
4th Floor, Janta Super Market,
Near Vepari Gin, Kalol. Distt. Gandhinagar.
- (2) M/s. Proec Energy Ltd.,
Shed No.6, GIDC Industrial Area,
Ambaji, Taluka Danta, Distt. Banaskantha.

COPY TO:-

1. The Chief Commissioner of Central Excise, Ahmedabad.
2. The Commissioner of Central Excise, Ahmedabad-III.
3. The Dy. Commissioner, Cen. Excise. (Systems), Ahmedabad-III.
(for uploading the order on the website).
4. Guard file.
5. Individual appeal file.
6. P.A. file.



